

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि . व. 2022-23	2023	2024		वि . व. 2022-23	2023	2024	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	-2	-1	0	5	2	3	4
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	41.44	3.51	3.74	3.60	258797336	22281370	21705635	21907760
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	15.00	1.27	1.42	1.46	172251292	14888685	14658627	14722762
1.1.1 आउटराइट	7.99	0.68	0.79	0.87	10090700	895740	1100547	1273135
1.1.2 रेपो	4.07	0.38	0.43	0.39	68032487	6436404	6039056	6575139
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.94	0.21	0.21	0.20	94128105	7556541	7519024	6874488
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	25.16	2.11	2.21	2.04	78932050	6602897	6439543	6537554
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.27	0.13	0.11	0.09	7613994	789788	607465	647444
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2425.62	200.50	230.99	238.26	149946286	12053579	14691625	14614297
1.1 ग्राहक लेनदेन	2411.19	199.35	229.79	237.09	131667176	10566198	13127720	13083464
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.43	1.14	1.20	1.17	18279111	1487381	1563905	1530833
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	983620.84	88539.09	137068.03	137733.21	55009620	4647461	5945126	6039675
2.1 ईपीएस (निधि अंतरण) @	5.90	0.31	0.36	0.32	356	22	24	21
2.2 एपीबीएस \$	17833.95	2519.89	2118.74	2965.77	247535	35468	42872	48312
2.3 आईएमपीएस	56532.64	4478.13	5087.92	5346.35	5585441	468647	566310	568092
2.4 एनएसीएच जमा \$	19257.19	1517.57	948.05	1504.81	1541815	131505	127514	123887
2.5 एनईएफटी	52847.43	4675.61	6882.78	6889.23	33719541	2775972	3367322	3471495
2.6 यूपीआई @	837143.73	75347.57	122030.18	121026.73	13914932	1235847	1841084	1827869
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.21	1.51	1.90	1.66	197	17	21	19
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	15343.05	1359.79	1571.50	1611.25	1289611	115272	154405	153734
3.1 भीम आधार पे @	214.22	11.50	18.82	15.43	6791	454	619	376
3.2 एनएसीएच नामे \$	13502.52	1209.13	1440.08	1464.78	1280219	114587	153564	153173
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1626.31	139.16	112.60	131.04	2601	231	222	184
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63324.72	4588.51	4934.19	4634.88	2152245	168378	211931	190658
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	29145.24	2323.20	3289.52	3112.44	1432255	118684	166444	149206
4.1.1 पीओएस आधारित \$	15598.46	1255.88	1725.59	1618.50	541932	44611	58532	54431
4.1.2 अन्य \$	13546.79	1067.32	1563.93	1493.94	890323	74073	107912	94775
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	34179.48	2265.31	1644.68	1522.44	719989	49693	45487	41452
4.2.1 पीओएस आधारित \$	22904.86	1581.95	1193.18	1109.26	476520	33432	30383	27930
4.2.2 अन्य \$	11274.61	683.36	451.50	413.18	243470	16261	15103	13522
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	74667.44	6050.89	7087.25	6470.87	287111	22399	25784	22676
5.1 वालेट	59112.76	4929.04	5766.67	5211.85	221896	18356	21259	18434
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15554.69	1121.85	1320.58	1259.02	65215	4043	4525	4242
5.2.1 पीओएस आधारित \$	1013.09	63.07	690.67	702.42	14777	792	927	919
5.2.2 अन्य \$	14541.60	1058.78	629.91	556.60	50438	3251	3598	3323
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	7109.28	553.90	547.17	541.88	7172904	565690	583653	602630
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	7109.28	553.90	547.17	541.88	7172904	565690	583653	602630
6.2 अन्य	0.00	—	—	—	—	—	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1144065.34	101092.17	151208.15	150992.10	65911490	5519200	6920899	7009374
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1146490.96	101292.67	151439.14	151230.36	215857776	17572779	21612523	21623671
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1139381.68	100738.77	150891.97	150688.48	208684872	17007089	21028871	21021041

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि . व. 2022-23	2023	2024		वि . व. 2022-23	2023	2024	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	805338.23	72542.86	117854.93	117275.04	22031628	1930129	2815296	2828112
1.1 अंतर्बैंक \$	62306.61	5107.77	7654.37	7774.97	4191430	353815	524854	530845
1.2 अंतर-बैंक \$	743031.61	67435.09	110200.56	109500.07	17840197	1576314	2290441	2297267
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	42630.64	3319.04	3837.71	3800.36	91539296	7380904	9123990	8867591
2.1 अंतर्बैंक @	10703.78	834.55	1028.04	1008.05	53506133	4172937	4767036	4540083
2.2 अंतर-बैंक @	31926.86	2484.49	2809.67	2792.31	38033163	3207966	4356954	4327508
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	69468.87	5472.33	5306.01	5171.94	3305008	263681	260746	257228
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	88.37	7.39	8.26	7.91	4296	358	404	395
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	68975.18	5433.46	5272.19	5138.76	3286749	262098	259326	255798
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	405.32	31.47	25.56	25.27	13963	1225	1016	1035
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	27.73	2.17	0.65	0.55	278	21	6	5
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	27.41	2.16	0.64	0.53	276	21	6	5
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.33	0.01	0.02	0.01	2	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	12375.16	918.44	839.66	812.15	333966	25483	22351	21543
5.1 ईपीएस @	12375.16	918.44	839.66	812.15	333966	25483	22351	21543

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2023 तक	2023	2024	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10465.62	10374.87	10570.66	10612.71
1.1 क्रेडिट कार्ड	853.03	833.66	995.00	1006.00
1.2 डेबिट कार्ड	9612.59	9541.22	9575.66	9606.71
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16185.22	16109.65	17676.26	17118.56
2.1 वालेट @	13384.65	13335.10	14396.94	13795.76
2.2 कार्ड @	2800.57	2774.55	3279.32	3322.80
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.59	2.57	2.58	2.57
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.23	2.21	2.24	2.23
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.36	0.34	0.34
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	16.11	15.59	17.60	17.01
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	77.90	77.58	85.93	87.73
6 भारत क्यूआर @	53.82	52.22	60.04	61.50
7 यूपीआई क्यूआर *	2563.77	2500.89	3213.79	3371.80

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंको, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मंदो का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएस के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।